



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



निदेशक एवं स्टाफ

सीएसआईआर-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पालमपुर (हि.प्र.)

संस्थान के 40वें स्थापना दिवस समारोह

के अवसर पर

शनिवार, 02 जुलाई 2022, प्रातः 10:00 बजे
आपको संस्थान के एसएस भटनागर सभागार में
सादर आमंत्रित करते हैं।

डॉ. टी. रामासामी

भूतपूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं
डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ़ ऐमिनेंस, प्रौद्योगिकी सक्षम केंद्र,
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

“टुवर्ड्स सस्टेनेबल बायोइकॉनमी पाथ ऑफ़ हिमालयन बायोस्फीयर:
आईएचबीटी ऐज द पाथ फाइंडर”

विषय पर स्थापना दिवस संभाषण देंगे

दर्शनाभिलाषी:

फोन: 01894-230411

ई-मेल: director@ihbt.res.in



Scan for Venue



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



Director and Staff

CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology
Palampur (H.P.)

cordially invite you to the

40th FOUNDATION DAY CELEBRATIONS OF THE INSTITUTE

on Saturday, July 02, 2022 at 10:00 am
in SS Bhatnagar Auditorium

Dr. T. Ramasami

Former Secretary to Govt. of India,
Ministry of Science and Technology &
Distinguished Professor of Eminence,
Technology Enabling Centre, Anna University, Chennai

will deliver the Foundation Day Lecture

on

*“Towards Sustainable Bioeconomy Path of Himalayan
Biosphere: IHBT as the Path Finder”*

R.S.V.P.

Tel.: 01894-230411

Email : director@ihbt.res.in



Scan for Venue

कार्यक्रम

संस्थान गान
स्वागत संबोधन
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण
समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर
संस्थान प्रकाशन विमोचन
मुख्य अतिथि का परिचय
स्थापना दिवस संभाषण
धन्यवाद प्रस्ताव
राष्ट्रगान
सामूहिक छायाचित्र
पौधारोपण

Programme

Sansthan Gaan
Welcome Address
Annual Report Presentation
Signing of MoUs
Release of Institutional Publications
Introduction of the Chief Guest
Foundation Day Lecture
Vote of Thanks
National Anthem
Group Photograph
Tree Plantation

Towards Sustainable Bioeconomy Path of Himalayan Biosphere: IHBT as the Path Finder



Dr. T. Ramasami

Former Secretary to Govt. of India,
Ministry of Science and Technology &
Distinguished Professor of Eminence,
Technology Enabling Centre,
Anna University, Chennai.

CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR-IHBT) is located in a fragile ecosystem and is mandated to emerge "as a global leader on technologies for boosting bioeconomy through sustainable utilization of Himalayan bioresources". Sustainable bioeconomy is an emerging theme across the globe and contextualizing such a theme in the context of Himalayan biosphere is a greater challenge. IHBT, established in 1983 as a constituent research laboratory of CSIR for tapping economic potentials of bioresources of Himalayas, is currently located in a responsible role of serving as a path finder in the journey of the region towards sustainable economy of Himalayan bioresources.

In the march of IHBT towards its golden jubilee, it needs to embrace the role of a leader in the exploration of a sustainable path for connecting the Himalayan bioresources with the emerging bioeconomy thrust of India. An attempt will be made to provide a ring side view of a well-wisher of IHBT in its journey from the fourth to the fifth decennium.

The tasks needed in scoping value potentials of the bioeconomy of the Himalayan biosphere, and technology enablement of sustainable development path base may be outlined and some outlines for the forward plans of IHBT in her march towards the Golden Jubilee will be attempted.